



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

मार्च 7, 2025

संख्या 10

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट-बढ़	
	मार्च 1	फरवरी 21	फरवरी 28	समाह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3424547	3615424	3615588	164	191041
1.1 संचलन में नोट	3424536	3615412	3615574	163	191038
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	12	14	1	2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	101	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	959783	888462	927189	38727	-32593
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8354	7826	7452	-374	-902
2.6 अन्य बैंक	53522	51200	51445	245	-2077
2.7 अन्य	529686	582677	458789	-123888	-70898
3 अन्य देयताएं	1718716	2125676	2173208	47532	454491
कुल देयताएं / आस्तियां	6694752	7271408	7233813	-37594	539062
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4637777	4750513	4791298	40785	153521
2 सोना	401430	646668	641218	-5450	239788
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1362319	1399251	1399552	301	37233
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	3252	22112	22937	825	19685
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	112767	301901	229480	-72421	116713
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	35	35	0	-35	-35
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	156392	126310	123674	-2636	-32718
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	18716	22556	23591	1036	4875

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	फरवरी 28, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			समाह		मार्च 2024 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5589313	638698	35563	-1781	198057	-7720	402169	13073
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां #	4754944	543350	39134	-493	-6900	-27601	159723	-10882
1.2 स्वर्ण	641218	73272	-5450	-1304	201899	20597	239788	24856
1.3 विशेष आहरण अधिकार	157504	17998	1674	27	6281	-134	6772	-182
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	35646	4078	205	-12	-3223	-584	-4114	-719

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

मार्च 7, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 922740 करोड़	2025													
	फरवरी 22		फरवरी 23		फरवरी 24		फरवरी 25		फरवरी 26		फरवरी 27		फरवरी 28	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	940606	940554	908199	947294	947429	942397	933991							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.9	101.9	98.4	102.7	102.7	102.1	101.2							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	फरवरी 21, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2023-24	2024-25	2024	2025
			3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	272537	-7321	40109	-21934	48917	6308
1.2 बैंकों से उधार	112777	984	110919	-69651	109757	-65341
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	36706	850	13294	-35745	12712	-35112
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	22284446 (22222583)	-40963	2160916 (2048129)	1809219	2342976 (2230189)	2079616 (2130541)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.2	12.0 (11.4)	8.8	13.1 (12.5)	10.3 (10.6)
2.1.1 मांग	2524096	31563	187877	80242	217577	155788
2.1.2 मीयादी	19760350	-72526	1973039	1728977	2125399	1923828
2.2 उधारियां	900975	-39583	333689	123033	312512	121957
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1021782	-19955	131736	84354	158438	100395
3 रिज़र्व बैंक से उधार	301901	116481	91289	79185	147348	45527
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	970222	7987	92275	-50693	97226	-22223
4.1 उपलब्ध नकदी	81760	-2086	-7217	-7673	-14188	-1285
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	888462	10074	99492	-43021	111414	-20938
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	205131	-888	-1480	6804	-3725	13189
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	16274	-1201	-11031	3919	-6614	2440
5.3 बैंकों को अग्रिम	36995	742	4869	-11374	6135	-9059
5.4 अन्य आस्तियां	66352	-1392	38154	-49072	38311	-38933
6 निवेश	6651031 (6600149)	-31338	633518 (541845)	544473	711108 (619435)	602365 (643157)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.5	11.7 (10.0)	8.9	13.3 (11.6)	10.0 (10.8)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6650507	-31368	633519	544898	711129	602667
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	524	30	-1	-425	-21	-302
7 बैंक ऋण	17989988 (17556785)	26559	2538899 (2002494)	1557824	2763866 (2227461)	1775853 (1879056)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	18.6 (14.6)	9.5	20.5 (16.6)	11.0 (12.0)
7 क.1 खाद्य ऋण	47448	-6497	20596	24367	5225	6946
7 क.2 खाद्यतर ऋण	17942540	33056	2518303	1533457	2758641	1768907
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17665616	25402	2511790	1531313	2724608	1728920
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	72978	-562	13477	12511	15892	20066
7 ख.3 भुनाए गए	214336	1818	23198	16979	29757	28228
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	14897	-433	-3140	-1515	-756	-1508
7 ख.5 भुनाए गए	22161	334	-6426	-1463	-5635	148

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/सामाज सह	2024	2025				
	मार्च 1	जनवरी 31	फरवरी 7	फरवरी 14	फरवरी 21	फरवरी 28
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.32	..	4.37	..
	..	..	(4.31)	..	(4.35)	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	78.73	..	79.00	..
	..	..	(80.46)	..	(80.73)	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	85.80	..	89.21	..
	..	..	(82.76)	..	(86.10)	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	29.79	..	29.70	..
	..	..	(29.93)	..	(29.85)	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	32.52	..	31.53	..
	..	..	(31.12)	..	(30.09)	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.50	6.25	6.25	6.25	6.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर *	6.25	6.25	6.00	6.00	6.00	6.00
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50
बैंक दर	6.75	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	6.61	6.57	6.44	6.32	6.33	6.33
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.96	6.56	6.47	6.44	..	6.45
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.17	6.67	6.58	6.57	..	6.60
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.12	6.63	6.54	6.55	6.56	6.54
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.06	6.71	6.73	6.74	6.73	6.73
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया @						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.87	86.64	87.48	86.89	86.65	87.40
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.58	90.01	90.76	90.86	90.91	90.78
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.51	2.80	2.66	3.34	2.75	3.21
3-माह	1.39	2.69	2.63	2.89	2.60	2.46
6-माह	1.42	2.30	2.31	2.37	2.26	2.20

* प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।
@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका / डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024	2025	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2024		2025	
	मार्च 31	फरवरी 21	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	24831618 (24939860)	26851620 (26913482)	-20565 (-21706)	-0.1 (-0.1)	2150353	9.6	2020002 (1973622)	8.1 (7.9)	2400782	10.9	2357506 (2306582)	9.6 (9.4)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3557833	20532	0.6	85197	2.6	147557	4.3	138897	4.3	196199	5.8
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2586888	2664976	30928	1.2	189921	8.2	78088	3.0	217937	9.5	154457	6.2
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	18739918 (18848160)	20515499 (20577362)	-73410 (-74551)	-0.4 (-0.4)	1869177	11.2	1775582 (1729202)	9.5 (9.2)	2024258	12.3	1977356 (1926432)	10.7 (10.3)
1.4 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	113312	1385	1.2	6057	7.8	18776	19.9	19690	30.7	29494	35.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016 (7603571)	8099668 (8150550)	-57195 (-57195)	-0.7 (-0.7)	58261	0.8	587652 (546979)	7.8 (7.2)	369548	5.4	875874 (835083)	12.1 (11.4)
2.1.1 रिजर्व बैंक	1193213	1193390	-26989		-486130		177		-251529		228394	
2.1.2 अन्य बैंक	6318803 (6410358)	6906278 (6957160)	-30206 (-30205)	-0.4 (-0.4)	544391	9.5	587475 (546802)	9.3 (8.5)	621077	11.0	647480 (606689)	10.3 (9.6)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	16672145 (17202832)	18368392 (18801595)	37550 (35110)	0.2 (0.2)	2004936	13.9	1696247 (1598763)	10.2 (9.3)	2246205	15.8	1933820 (1830618)	11.8 (10.8)
2.2.1 रिजर्व बैंक	14406	28593	7801		-15428		14187		-1408		17472	
2.2.2 अन्य बैंक	16657739 (17188426)	18339799 (18773002)	29749 (27308)	0.2 (0.1)	2020364	14.0	1682060 (1584576)	10.1 (9.2)	2247613	15.9	1916348 (1813146)	11.7 (10.7)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5567504	5763337	-27660	-0.5	372597	7.6	195834	3.5	550108	11.6	478715	9.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	33432	36017	0	0	2912	9.6	2585	7.7	3191	10.6	2819	8.5
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	4953478 (5467477)	5415795 (5838017)	-26739 (-28039)	-0.5 (-0.5)	288354	6.9	462317 (370540)	9.3 (6.8)	768269	20.7	933722 (840653)	20.8 (16.8)
2.5.1 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1790134	2108450	92	0.0	111738	7.0	318316	17.8	202903	13.6	408887	24.1

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024	2025	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2024		2025	
	मार्च 31	फरवरी 28	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4631446	4750395	38167	0.8	175502	4.0	118949	2.6	256598	6.0	188134	4.1
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3511461	3651591	163	0.0	79213	2.3	140130	4.0	111979	3.3	193858	5.6
1.2 रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1025449	986086	38598	4.1	91182	9.8	-39363	-3.8	126065	14.1	-35573	-3.5
1.3 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	112718	-594	-0.5	5107	6.6	18181	19.2	18554	28.8	29849	36.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1193213	1274102	80713		-295865		80890		-167620		118842	
2.1.1 रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1186655	1251208	79887		-298326		64553		-156795		99157	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-46147	163132	-31509		136544		209279		93732		121031	
2.2.1 बैंकों पर रिजर्व बैंक के निवल दावे	-60553	132244	-33804		151976		192797		97056		101260	
2.3 रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5241083	5432063	35433	0.7	449249	9.8	190981	3.6	589840	13.3	395199	7.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	33432	36017			2912	9.6	2585	7.7	3191	10.6	2819	8.5
2.5 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1790134	2154920	46470	2.2	117338	7.4	364786	20.4	262545	18.2	449757	26.4

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
फरवरी 24, 2025	-	-	36775	-	2400	78791	-	-	-	-39616
फरवरी 25, 2025	-	-	75012	-	895	112841	-	-	-	-36934
फरवरी 26, 2025	-	-	-	-	443	101569	-	-	-	-101126
फरवरी 27, 2025	-	-	49955	-	1334	103098	-	-	-	-51809
फरवरी 28, 2025	-	-	16258	-	8943	97238	-	-	-	-72037
मार्च 01, 2025	-	-	-	-	5761	118757	-	-	-	-112996
मार्च 02, 2025	-	-	-	-	5797	122853	-	-	-	-117056

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा.

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2023	2024		2025	वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	दिसंबर	जनवरी	दिसंबर	जनवरी	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.7	185.5	195.4	193.5	-1.0	4.1	4.3
1.1 ग्रामीण	187.6	187.3	198.4	196.0	-1.2	4.4	4.6
1.2 शहरी	183.6	183.5	192.0	190.6	-0.7	3.8	3.9
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	138.8	138.9	143.7	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.8	151.2	155.4	154.7	-0.5	2.2	2.3
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	182.8	181.4	193.8	189.9	-2.0	3.7	4.7
3.2 ईंधन और बिजली	155.8	154.9	149.9	150.6	0.5	-1.0	-2.8
3.3 विनिर्मित उत्पाद	140.0	139.7	143.0	143.2	0.1	2.2	2.5

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
फरवरी 07, 2025	519277	71094	7.03 - 7.83
फरवरी 21, 2025	513816	30078	7.02 - 7.93

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
फरवरी 15, 2025	479257	80693	6.97 - 12.40
फरवरी 28, 2025	465927	64881	6.78 - 12.24

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	मार्च 1, 2024	फरवरी 21, 2025	फरवरी 28, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	18315	23232	25329
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	5672	1004	10311
3 त्रिपक्षीय रेपो	712802	648196	802167
4 बाजार रेपो	652752	521248	627685
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	2620	7841	7237

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

फरवरी 28, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	7786	14025	73415	212215
182-दिवसीय	37126	54510	7528	184328
364-दिवसीय	66240	112173	36713	366713
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2024-25 (फरवरी 28, 2025 तक)	2023-24 (मार्च 1, 2024 तक)	2023-24	2024-25 (फरवरी 28, 2025 तक)	2023-24 (मार्च 1, 2024 तक)	2023-24
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1368697	1543000	1543000	1007275	1102871	1102871
2. राज्य सरकारें	848413	814295	1007058	572320	563873	717140

WSS षे िए संक पनाएं त उन पर आधारित क 'परणाWSS ततपुिततक ि (<https://rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>) म उप ध ह ।

समयूख ि आंक षंटरनषट पर <https://data.rbi.org.in/> म उप ध ह ।

ी जरी. वि. ननए, निदषशक द्ारा भारतरी रि र्क , शहीद भगितसंहंग, फोदु ई - 400 001 की ओर से संपादित एवं पकार्शित हैं ।